

सेहत से खिलवाड़: चमेला काँलोनी में दो फैक्ट्रियों में मिला नकली पनीर, सब्जी मंडी में कारखाने में ड्रम में मिला सड़ा हुआ अचार



- सीएम फ्लाइंग ने तीन स्थानों पर छापा मार की कार्रवाई

सीएम फ्लाइंग स्कवॉड व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने जिले में तीन स्थानों पर छापा मार कर नकली पनीर और सड़ा हुआ अचार पकड़ा है। नरवाना की चमेला काँलोनी में दो फैक्ट्रियों से लाखों रुपए का नकली पनीर बरामद किया है। इसे दूध और पाम आयल से तैयार करने की आशंका है। यह पनीर चंडीगढ़ व पंचकूला सप्लाई किया जाता है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नकली पनीर सप्लाई करने वाली फैक्ट्रियों की तलाश में सीएम फ्लाइंग लगातार अपनी कार्रवाई कर रही थी।

इसके कारण सोमवार को नरवाना की चमेला काँलोनी में किराए के मकानों में चल रही दो ऐसी फैक्ट्रियों पाई गईं, जहां भारी मात्रा में नकली पनीर बनाया जा रहा था। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार ने बताया कि चमेला काँलोनी में दो फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। एक फैक्ट्री सुरता खेड़ा निवासी रोहताश चला रहा था। उसके पास से 2 क्विंटल नकली पनीर बरामद हुआ। इसके अलावा 1300 किलोग्राम दूध भी इस फैक्ट्री से बरामद हुआ। जो पाउडर से बनाया गया था। दूसरी फैक्ट्री का संचालन सिंगवाल गांव का प्रवीण कर रहा था। यहां से लगभग 3 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया। इसके अलावा 3 क्विंटल दूध व 11 टिन पाम ऑयल व 5 बैग पाउडर के बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा दूध व पनीर के सैंपल को जांच के लिए भी भेजा जाएगा। सीएम फ्लाइंग में फूड सेफ्टी ऑफिसर राजीव शर्मा, सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर रामरूप सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

ताकि बाजार में न जाए: 2 क्विंटल पनीर नष्ट किया

पाम ऑयल मिलने के बाद जहर बन जाता है पनीर : फूड सेफ्टी ऑफिसर राजीव शर्मा ने बताया कि दूध में पाम ऑयल मिला दिया जाए तो वह जहर बन जाता है। त्यौहारी सीजन में मांग बढ़ने लोग नकली माल बनाकर बजारा में खपाते हैं। नकली दूध व पनीर बनाकर बड़े शहर में बेचते हैं। इसके बाद यह जहरीला पदार्थ लोगों पेट में जाकर कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है।

सीएम फ्लाइंग व फूड सेफ्टी विभाग ने अचार फैक्ट्री से लिए 8 सैंपल

जींद | सीएम फ्लाइंग व फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने सोमवार दोपहर को सब्जी मंडी के पास स्थित अचार फैक्ट्री में छापा मारा। फूड सेफ्टी विभाग ने फैक्ट्री से अचार के 8 सैंपल लिए गए हैं। सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। यहां कई ड्रम सड़ा और खराब हुआ अचार भी भरा मिला। सोमवार को सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर रविंद्र प फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. राजीव के नेतृत्व में टीम कनई सब्जी मंडी के पीछे चल रही लक्की अचार फैक्ट्री में पहुंची। आम, नींबू, मिर्च समेत 8 तरह के अचार के सैंपल लेकर टीम ने इन्हें जांच के लिए लैब भेजने की कार्रवाई की। लक्की अचार फैक्ट्री में बड़े स्तर पर अचार बनाया जाता है। यह अचार फिर पूरे शहर के अलावा जींद से बाहर भी सप्लाई किया जाता है। फैक्ट्री के गोदाम में अचार के 100 से भी ज्यादा बड़े ड्रम स्टॉक किए गए थे।

8 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं लैब फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. राजीव कुमार का कहना है कि लक्की अचार फैक्ट्री से विभिन्न प्रकार के अचार के कुल सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

Source:

<https://www.bhaskar.com/local/haryana/panipat/narwana/news/fake-cheese-found-in-two-factories-in-chamela-colony-rotten-pickle-found-in-drum-in-factory-in-vegetable-market-127831272.html>